



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेल भर्ती बोर्ड



सी.ई.एन. सं. आरआरसी-01/2019 (स्तर-1 पद)

(7वें सीपीसी मैट्रिक्स के लेवल-1 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए)

सीबीटी के लिए परीक्षा तिथि की सूचना
तथा
आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

1. कोविड-19 महामारी से निपटने को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों और वर्तमान परिस्थितियों के अधीन एकल चरण सीबीटी को 17 अगस्त 2022 से कई चरणों में अस्थायी रूप से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
2. आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (संशोधित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (बी) के उप-खंड (ii) आधार के नियम 5 के साथ पठित सुशासन के लिए प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के अनुसरण में, रेल भर्ती बोर्डों को परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण और अन्य कदाचार से बचने और परीक्षा के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है।
3. तदनुसार, अभ्यर्थियों का आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा से पहले/उसके दौरान किया जाएगा।
4. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को देखें। कृपया अनधिकृत स्रोतों से गुमराह न हों।
5. उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से विचार करके नौकरी के लिए नियुक्ति के झूठे वादों के साथ अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आरआरबी में चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पर आधारित है और भर्ती केवल अभ्यर्थियों की योग्यता पर आधारित है।

दिनांक: 30.06.2022

अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड